

Récapitulatif du vocabulaire nouveau contenu dans les leçons 44 et 53 (dialogues et notes) :

अंधाधुंध, जन्मदिन, जादू, जादूगर, जीवन, ढेर, दोहराना, नाश, पटकना, परिणाम, प्रतिभा, बधाई, बुनकर, माल, मुबारक, विकास, विचारक, संदेश, सालगिरह, सुहाना, सौदागर, स्वाधीन, स्वाधीनता-संग्राम, हंगामा, हाल में, हालत, हिंसा, हित

Vocabulaire de la fiche de cours

खेत (m) champ
 चाटना (t) lécher
 जासूस (m) espion
 डंडा (m) bâton
 धारणा (f) opinion, idée
 निन्दा (f) calomnie, condamnation
 पछताना (i) regretter, se repentir
 प्राप्त (a) obtenu
 भ्रष्ट (a) corrompu
 भ्रष्टाचार (m) corruption
 विषय (m) sujet
 शव (m) cadavre
 सरल (a) simple, facile
 सहारा [m] aide, soutien, secours ⇨ के सहारे (pp) à l'aide de
 सामान्य (a) général, commun
 सौभाग्य (m) chance, bonheur
 हरकत (f) agissement
 हासिल करना (t) obtenir

Synonymes et antonymes

परिणाम (m) conséquence, résultat = नतीजा (m)
 हित (m) = लाभ (m) = फ़ायदा (m) = मुनाफ़ा (m) profit, gain, bénéfice
 नाश (m) = तबाही (f) destruction, ruine

Dérivations

जीवन (m) vie, existence → जीवन-चरित्र (m) biographie / जीवन-तल = जीवन-स्तर (m) niveau de vie / जीवित (a) vivant

दोहरना (i) être répété, doublé, plié en deux → दोहराना (t) répéter, doubler, dupliquer / réviser ; दोहराई (f) répétition, révision, réduplication

नाश (m) / विनाश (m) destruction, ruine → नाशक / नाशकारी (a) destructeur, dévastateur ; नाशित (a) détruit

विकास (m) développement, croissance, évolution → विकसित (a) développé ; विकासशील (a) en développement (pays)

विचार (m) pensée, réflexion, avis → विचारक (m) = विचारी (m) penseur ; विचार-धारा (f) courant de pensée, tendance, idéologie

सौदा (m) marchandise → सौदागर (m) marchand ; सौदागरी (f) commerce

उपकार (m) bienfait → उपकारक / उपकारी (m/a) bienfaiteur / bienfaisant

Suffixe -ईकरण → noms d'action causée, masculins « -ication / -isation »

बिजली (f) électricité → बिजलीकरण (m) électrification

उद्योग (f) industrie → औद्योगीकरण (m) industrialisation

आधुनिक (a) moderne, modernisé → आधुनिकीकरण (m) modernisation

एक un, unique → एकीकरण (m) unification, assimilation

केंद्र (m) centre → केंद्रीकरण (m) centralisation

साधारण (a) commun, ordinaire, usuel → साधारणीकरण (m) généralisation

स्थायी (a) stable, permanent → स्थायीकरण (m) stabilisation, confirmation

Préfixes निश- / निष- / निस- / निर-, qui transforment un nom ou une racine verbale en adjectif négatif :

चल (a/m) mobile, instable / mouvement → निश्चल (a) immobile, stable

पाप (m) mauvaise action → निष्पाप (a) innocent

पक्ष (m) flanc, côté / aile / parti → निष्पक्ष (a) impartial, sans parti-pris, objectif

संकोच (m) hésitation, timidité → निस्संकोच (a/adv) sans hésitation

मल (m) saleté, souillure → निर्मल (a) pur, propre

दोष (m) faute, tort / défaut, vice → निर्दोष (a) innocent, sans défaut

आकार (m) forme → निराकार (a) sans forme, informe

जीव (m) créature vivante, forme de vie, vie → निर्जीव (a) sans vie, inanimé, mort

Locutions et expressions

जन्म (m) naissance → (X को) जन्म देना (t) donner naissance (à X) = जनमाना (t) / जन्म लेना (t) naître, être né = जनमना (i)

ढेर (m) tas, pile, amoncellement → ढेर करना (t) entasser, amasser / porter un coup, mettre KO, tuer ; ढेर होना (i) être en ruines, s'écrouler / mourir ; ढेर सारे (a) / ढेर सा (a/m) quantité de, tas de